



UTSL/NSE/2023-24

Date: 10<sup>th</sup> November, 2023

To,

The Secretary-Listing Department The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

## Ref: Scrip Code/Symbol: UNIINFO

Sub: : Submission of Newspaper Clipping for the extract of Unaudited Financial Results for the Quarter/Half Year ended 30<sup>th</sup> September, 2023.

Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has published extract of Unaudited Financial Results for the quarter/half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023. We herewith enclose the Newspaper Advertisement published on 10<sup>th</sup> November, 2023 in Business Standard English Newspaper and Business Standard Hindi Newspaper.

You are requested to please take on aforesaid submission for your records and reference.

Thanking you,

For Uniinfo Telecom Services Limited

Sandeep Patel Company Secretary & Compliance Officer Encl: Clippings of Newspaper Advertisement



...

...

...

...

CHARINMAN AND MA	7.35     7.35     (8.44)     (8.44)     (8.44)     (6.44)     (7.44)		
s Profit Atter Tax: 46.23 (20.18) 76.60 (4.50 Roles: 2.1h above is an extract of the detailed format of quarterly Francial Results filed with the Stock Regulation 33 of the SEBI (Lising Obligation and Discoure Regularments) Regulation. 2015. The Quarterly Francial Results available on the Stock Exchange website www.riselind.com and 9. The above III-Audited Results wave reviewed by the Audit Committee and approved by the Board meeting held on 9th November, 2023. Plate: indere (M.P.) Date: 09-11-2023 Common Market Audit Committee Audit Committee and Approved by the Board Stock (SISIONE K SSC) (SISIONE	(8.44) (8.44) (Exchange under full format of the on the company of Directors at their Soard of Directors UMAR BHURADIA ) NAGING DIRECTOR		
Notes: 2.11he above is an extract of the detailed format of quartery Financial Results filed with the Stock Reputation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation. 2015. The Quartery Financial Results are available on the Stock-Andrage webste www.sensindia.com and the stock and approved by the Board of meeting hald on the Note-Andrage webste www.sensindia.com and the stock and approved by the Board of meeting hald on the Note-Andrage webste www.sensindia.com and the stock and the s	c Exchange under full format of the i on the company f Directors at their Board of Directors (UMAR BHURADIA ) NAGING DIRECTOR		
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The durative Financial Results are available on the Stock Exchange website www.meinfic.co.in         a. The above the Audited Results vere reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of the Bo	full format of the on the company f Directors at their Board of Directors UMAR BHURADIA ) NAGING DIRECTOR		
Regd. Office : 31, Chowinghee Road, Kolkata - 700 016 Telephone No: 91 33 40029600; Fax No: 91 33 40029676 Email Id: gitro@graphiteindia.com; Website: www.graphiteindia CIN: L10101WB1974PLC094602		h 000	
extract of Financial Results for the quarter and half year ended 30		ter, 202 (₹ in Crore	
Standalone	Consolidated		
SI. Quarter ended Half Year ended Quarter ended Quarter ended			
to. Particulars 30th 30th 30th 30th 30th 30th 20th 20th 20th 20th 20th 20th 20th 2	2023	30th September, 2022 (Unaudited	
1 Total Income from Operations 873 1,665 823 884	1,709	936	
1 Net Profit/Loss) for the period/year         0 Net Profit/Loss)         0 NetProfit/Loss)         0 NetProfit/Loss)	1,703	194	
SNet Profit/Lossy for the period/year         Solution         Solutition         Solution         Solution	955	149	
4 Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 815 788 139 802	772	92	
5 Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 815 788 139 800	769	87	
6 Equity Share Capital 39 39 39 39	39	39	
7 Other Equity			
8 Earnings/(Loss) Per Share (EPS) (of ₹ 2/- each)			
- Basic EPS (₹)         41.74         40.35         7.13         41.13           - Diluted EPS (₹)         41.74         40.35         7.13         41.13	39.57 39.57	4.72	
ote : le above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the gulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 20 o. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly Financial R cock Exchange websites (www.rseindia.com/ www.bseindia.com) and on the Company's websit	015 as modifie esults are ava	ed by circu ilable on t iteindia.com	
ate : 9th November, 2023	For Graphite K. K. Bangur Chairman DIN: 0002942		

30.09.2023

3774.60

414.60

414.60

310.95

310.95

300.02

6614.25

10.00

10.36

10.36

The above Financial results have been reviewed by Audit Committee, approved by the Board of Direc These Results have been Subjected to a "Limited Review" carried out by Statutory Auditors of the Com and they have expressed an unmodified review opinion.

4. Previous period figure has been re-grouped/re-classified, wherever necessary.

...

30.06.2023

3148.74

386.88

386.88

343.8

343.81

300.02

6303.31

10.00

11 46

11.46

The Results has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards notified by the Ministry of Corporate affairs (\*MCA\*) E. The related has observable at relacionance with menual metal relationance and analysis of the definition of the de

30.09.2022

593.47

52.50

52.50

14.14

300.02

5461.85

10.00

0.47

0.47

ed )

30.09.2023

(Un-audite 6923.34

801.48

801.48

654.76

654.76

300.02

6614.25

10.00

21.82

21.82

30.09.2022

1165.98

133.16

133.16

78.22

300.02

5461.85

10.00

2 61

2.61

UNIINFO TELECOM SERVICES LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

Particulars

me from Operations 2 Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

3 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)

5 Total Comprehensive Income for the period (Com 5 Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax)

6 Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)

1. Basic: 2. Diluted:

Total Income from operations (net

Net Profit / (Loss) for the period (bef

tax Exceptional and/or Extra ordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)

Total comprehensive income for the period Paid up Equity Share Capital

7 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for co

otes: 1.Standaione Financial Information of the Comp

Particulars

4 Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

3 Months Ended 30.09.2023

38.66

38.66

45.18

44.39

1069.31

3 Months Ended 30.09.2022 Un-audited

2804.19 1613.94

80.59

800.05 1513.98

(49.39)

(49.39) 80.59 (44.55)

(48.16) 73.53 (41.30)

(51.83) 69.90

1069.31 1069.31

(0.45)

0.42 (0.45) 0.69 (0.39)

ION 4/(1)(D) OT SEE 
 3 Months Ended
 3 Months Ended
 6 Months Ended
 6 Months Ended

 30.99.2023
 30.99.2022
 30.99.2023
 30.99.2022

 Un-audited
 Un-audited
 Un-audited

6 Months Ended 30.09.2022

(44.55)

(22.08)

1069.31

Fear Ended

3594.00

76.62

76.62

60.83

90.22

1069.31

0.57

(₹in Lacs)

31.03.2023

(audited ) 7499.80

768.72

768.72

575.86

575.86

300.02

5959.49

10.00

19 19

19.19

Place :- Bhopal Dated :- November 10, 2023 

sd/-Kishore Gupta DIN: 00014205 nan & Managing Director Chain ...

For Star Delta Transformers Limited

Dilute

Aditya Birla Money Ltd.	e Qelittyatel-lacigetat.com		ADITYA BIRLA CAPITAL				। लिमिटे		ट्राको बैंक (1) UCO BANK (पाल सरकार का प्रकाश) प्रयान कार्यावन — 11, पुरुषा कोर्टीकी निमान 1 कर 4 . सी. के स्ते अन्य न पाल के कोरकाठ-10004
Member of Multi Commodity Exchange of India Lin Commodity & Derivatives Exchange Limited (NCDEX)	OTICE nited (MCX) Membership Membership No.: 00158 a	p No.:28730 Me	mber of National SEBI Registration	शाखा कार्यालयः पहली मॅजिल गुरुक् कार्यालयः पहली मॅजिल, सार्च	ফাৰ্মাটৰে আনলৈ । নামৰ আৰ্চট পাৰে, গঁচ গিৰিগে, ৰগী ৰাজন কৰালাগ বন্দ, দুট, মহামেৰ্ড-নাচাতন, আন্তা আবাৰেং একো নীমল, নুজৰা জাৰ্মেণ্ডৰম, দুটা চাঁচ হোক বা খাবা, দুবো আয় দুবে, নুন্দ-ন2001 ম.হ., মেজা জন্যাৰ্থনে দোনী মৰিক, নামনী নৈ, আৰমে টুবেৰে দ্বীজন কৈ মোন্দ, হৈবা কা জান বিভিন্ন464001 (ম.হ.) বিধানি আনহিবা কৈ জান্দিন্দুৰে প্ৰতাৰ্থনাৰ প্ৰতাৰ্শনিৰ্দান আৰম্ভ বিন্দুনি বিহ ভৱৰ্কৰ সমিলিকা,				निविदा की सुचना युको बैंक निम्नलिखित मदों के लिए निविदा आमंत्रित करता है:
Number: INIZ000172836 This is to inform that we have terminated / cancelled the Automatic theorem and the second s		hentioned Authoris Roa h AP wara, NSE: BSE: Af		वित्तीय आस्तियों थे पिसां बजाज हादसिंग फाइनेंस विभिन्देड का सूचना देता है जो जजान तादसिंग फाइनेंस चुन्देगातन से उपने दोवार्थ्यों के पुरा करने से ब चार्यातीन हो गये हैं। तरदुराहा, वित्तीय आस्तियों के तातत उपने अजिमा झा तम पे सर उन्तें पुराना को रातारा इस प्रकारत नुपना के माध्यम से र अयातार सॉपन किया जाती है।	2002 की धारा 13 अधिकृत प्राधिकारी होने टेंड द्वारा उन्हें सम्पत्ति के स्रफल रहे हैं और परिणाम के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्नि एँ जारी गयी थीं, किन्तु उसे	3(2) के तहत मॉंग सू के नाते अधोहरसाक्षरी एतड विरुद्ध गृह ऋग(णों)/ऋग मरवरूप उनके ऋग निम्नरि मांग की धारा 13(2) एवं मे अनसव्ह/अनडिलीयर्ड व	1. वेन पांदेत के मायम से शिक्षी कोंऑसिंग एकॉइटर एवं देत्स सहाकोंकों को खरीर। 2. वंग पोर्टन के मायम से शाखाओं / कार्यातां में नेदरेक सिर्वास की आनुति स्थालग, जार्याचन और रख रखा। 3. आइएस ऑडिट रॉलटन / अंधने के मानेगवर होतु की की अजिसाति (ई-निविदा) किसी में विस्तन के लिए कृपन https://www.ucobank.com / https://gmm.gov/n सेवाइट पर रेते । (पर- माडार्याक) दिसांक: 10.11.2023 प्रपान में विराय हरन्याका आपलठे दिरसारस का   Honours Your Trust		
Please note that above mentioned AP is no longer above mentioned AP should do so at their own ris dealing with her.	associated with us. An k. Aditya Birla Money I	y person hencel	forth dealing with	प्रभाग पूर्व (चन्द्र नेताल) । प्रथण खाता सं./ कजंदार्थ रो)/सह-कजंदार्थ नाम तथा पता शाखा: सीहोर		सम्पति	का पता	ली मांग सूचना की तिथि एवं गणि 1 में 28 अक्टूबर, 2023	
Date: 09.11.2023		Aditya Birla	Money Limited	लैन नं. H5P4RLP0392916 1. अरुण जयसवाल (कर्जदार), 2. पायल बाई ( मंदिर मोहल्ला जबदिया पील, 75 तहसील कालाप	सह-कर्जदार) 222 राम पल जिला शाजापर मध्य	वर्णित मैर-कृषि संपत्ति क 316/6 पर अब 313/6 मि भखंड, आकार 1000 वर्गफ	। समस्त भाग, सर्वेक्षण सं न -1 क्षेत्रफल 0.010 हेकं ट ग्राम पानखेडी पी.सी. नंबर	ख्या तथा रु. 5,46,285/- टेयर (रुपये पांच लाख 22 छियालीस हजार दो	भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.) (CONTAINER START - A Narzba Cort. of India Undatability) (CONTAINER START - A Narzba Cort. of India Undatability)
यूनिइन्फो टेलीक सीआईएन : L64 पंजीकृत कार्यालय : 403, चेतक सेन्टर, 12/2 आएन ईमेल आईडी : compliance@unl-	202MP2010PLC024569 टी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)-452	2001. फोन नं. 07	31-4208091	प्रदेश, शाजापुर, मध्य प्रदेश-465337, इसके अनुसार प्लॉट पर सरल क्रमांक 36 भूमि सर्गे 313/6 मिन-1, ग्राम पानखेड़ी पी.सी. क्रमांक / जिला शाजापुर 465337 पर स्थित	क्रमांक 316/6 पर अब 22 तहसील कालापीपल 3	पूर्वः-विक्रेता भूमि पश्चिमः-न और संपत्ति का गेट दक्षिणः-	रेंद्र सोनी की भूमि उत्तरः-स विक्रेता भूमि	<i>इफ</i>	ষ্ঠ – দিনিবিয়া আগরলা মুখনা মুখনা ভাগকাং নিশানিবিয়া কার্ব ৯ বিবে বিবের বিধন বিধনা মুঁ – দিনিবা আগরিত কারো ট– দিনিবা জন্য কার্বাজী টপ্লেন্সিবা (মিন্দ্র) আঁর আইনিটা – আইনিবাং ক্রিমেন্দ্রের 2022-24 কার্বাজী টপ্লেন্সিবাং (মিন্দ্র) আঁর আইনিটা – আইনিবাং ক্রিমেন্দ্রের 7-24 লান্টা ২ জন তেংকারা
EXTRACT OF UNAUDITED CON THE QUARTER AND SIX MONT	SOLIDATED FINANCIAL	RESULTS FOR EMBER, 2023	upees in Lakhs except EP	शाखाः सीहोर लैन नंबर HSP4FRL0345701 1. बद्री प्रसाद धाकड़ (कुर्नदार), यार्ड नं. 1. खे	ड़ा, शाजापुर, मध्य प्रदेश-	खसरा नंबर 25/1/5, रक 2520 ग्राम जामनेर तहा	। का समस्त भागः पीएच ने. वा – 0.180 हेक्टेयर, 42x सील, शुजालपुर जिला श देश 465333 पूर्वः – भूमि वै	जापुर रु. 4,91,376/-	अनुमामित सागरा ७ 98224 सराव (जीएसरी सहित) वार्स पुरा होने की आसी। बरमा पत्रा राषी <b>Rs. 164.480</b> /-
Particulars	3 Months Ended         3 Months Ended           30.09.2023         30.09.202           Un-audited         Un-audited           1513.98         800.05	6 Months Ended 2 30.09.2023 3 d Un-audited U	6 Months Ended 10.09.2022 31.03.20 Jn-audited Audited 1613.94 3594.01	<ul> <li>465353 परं स्थित, इसक अलावा पाएव न. 3</li> <li>याम जामनेर तहसील, श्रुजालपुर जिला झाजापुर भ</li> <li>2. मधु याई (सह-कर्नदार), जेताड़ा पता, जामने</li> <li>465333 पर स्थित</li> </ul>	क्य प्रदेश-465333, र, शाजापुर, मध्य प्रदेश-	की, पश्चिमः- भूमि पोपसिंह दक्षिण : भूमि विक्रेता की	जी की, उत्तरः- कालापीपल	रोड, इक्यानवे हजार तीन सौ छिहतर मात्र)	Other centrits of anno         मृष्य           Other centres report         #4.720% (rml are after gives after 4_systems game)           (P4-unit) drug         101-1020 (550 velt res) & 011-2020 (750 velt res)           Other can drug the drug         051-1020 (550 velt res) & 011-2020 (750 velt res)           Other can drug the drug the reve         051-1020 (550 velt res)           Other can drug the drug term         051-1020 (550 velt res)
Total Income from Operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	38.66 (49.39) 38.66 (49.39)	80.59	(44.55) 76.62 (44.55) 76.62	रंगव्या: गुना लैन नंबर H484H1.D0289004, H484H 1. ब्रजेश मेर (कर्जरार), 2. चिरौजी लाल मेर, 3 (सह-कर्जदार), काला पाठा तुलसी चस्ती गु- इसके अलावा पी.एन, क्रमांक - 6. सर्वे क्रमां	HLT0299924 . श्रीमती पूजा मेर गज, क्र	वें नंबर 831/मिन -6 प्लों ) कुल प्लॉट एरिया 600 र हमांक 35 डोंगा पुरा, हरिज	ट नंबर 27 प्लॉट साइज ार्ग फुट यानी 55.76 वर्ग 1 बस्ती गुना, तहसील एवं	रु. 11,07,796/~ (रुपये ग्यारह लाख सात हजार सात सौ छियानवे मात्र)	तिकी प्राप्त अन्यत्र आपके आपके सिंह में प्रायंत्र के प्राप्त के कि प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त अन्य आप CPP के पित प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के त्यार्थ के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के बारक से किया जाएन। इसके लिए बार के प्राप्त के किया जाएन। इसके लिए बार का प्राप्त के प्राप्त क्रिक प्राप्त के प्राप्त क्रिक प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त क
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	45.18 (48.16)	73.53	(41.30) 60.83	प्लॉट क्रमॉक 27 वार्ड क्रमॉक 35 दोंगा पुरा, ह तहसील एवं जिला गुना मध्य प्रदेश-473001	रिजन बस्तौ गुना, और अ	18 फोट उत्तर: प्लाट नवर ान्य प्रकान	28 (1499): 4916 - 144 ( 26		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	44.39 (51.83) 1069.31 1069.31	69.90 1069.31	(22.08) 90.22 1069.31 1069.3	शाखाः गुना सैन नंबर H484HLD0300626, H484HLT0306417 1. धर्मेंद्र प्रजापति (कर्नदार), 2. मीना प्रजापति ( क्राइस्ट स्कूल के पास चंद्रगुप्त गली गुना-473	153 और एलएसएन सह-कर्जदार) सकतपुरा,	ात गैर-कृषि संपत्ति का न र 154, प्लॉट क्षेत्र 600 न नंबर 181/मिन-1 द्वार 1, तहसील और जिला गु-	वर्ग फुट पीएच नं. 62, काधीश टाउनशिप, गांव ह, मध्य प्रदेश-473001	30 अक्टूबर, 2023 तथा रू. 4,88,092/- (रुपये चार लाख अट्ठासी हजार बानवे मात्र)	NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	0.42 (0.45)	0.69	(0.39) 0.57	प्लॉट नं. 153 और 154, फोन 62, एलएसएन न 1 डारकाधीश टाउनसिप, गांव सकतपुरा, तहर गुना, मध्य प्रदेश-473001	वर 181/मिन- तिल एवं जिला उत्तरः प्ल		दक्षिणः प्लॉट नंबर 152	2.024	E-TENDER NOTICE Hon'ble Commissioner, Nagpur Municipal Corporation, Nagpur, invites request proposal / e-tender for 'Selection of Master System
2. Diluted: oles: 1.Standalone Financial Information of the Company, Particulars	3 Months Ended 30.09.2023 30.09.202	6 Months Ended 2 30.09.2023 3	6 Months Year Ended Ended 10.09.2022 31.03.20		एलॉट नंब ठवीना (सह- वर्रतगंज, मध्य	बर 22 के तहत, खसर 1500 वर्गफुट वाहं नंब	ामरत भागः निर्मित आवारं 1 नंबर 164/4 का हिस् र 12, न्यू ग्लोरियास सि बर 18 डॉक्टर, राजेंद्र प्रस्	पा, तथा स्टी रु. 11,47,702/-	Integrator (MSI) to Design, Implement, Integrate, Operate and Maintain Intelligent and Integrated Traffic Management System (IITMS) in Nagpur City for a period of 5 years' from reputed firms. The
Turnover Profit before Tax	Un-audited Un-audited 1513.98 801.16 39.72 (31.40)	2804.19	Jn-audited         Audited           1616.26         3438.73           (7.75)         7.35	164/4 का हिस्सा, वार्ड नंबर .12, न्यू ग्लोरियस गाम गैवरपर पी प्रच नंबर 19 जॉ. राजेंट प्रयाह	सिटी कॉलोनी तार्न गैवलाय रोड 25	गेरतगंज मध्य प्रदेश -464 फौट पश्चिमः प्लॉट नंबर	884 में स्थित पर्यः कोल	ना	estimated cost of the project is Rs 1,67,07,37,458/ The above estimated rates are excluding GST. EMD Rs. 1,00,00,000/ Cost of Blank Tender INR 5900 /-(including GST), Pre-bid meeting 29/11/2023 at
Profit After Tax otes : 2.The above is an extract of the detailed format o	46.23 (30.18) f quarterly Financial Resi	75.60 ults filed with the	(4.50) (8.44) e Stock Exchange und	नगर पंचायत गरतगज, तहस्राल, गरतगज रायसन प्रदेश - 464884 पर स्थित धा सूचना की वैकल्पिक सर्विस के लिए कदम उठार	गरतगज मध्य पार्थणः व र जा रहे हैं। उपयुंक्त कर्जद	वारों तथा/अथवा सहकर्जदार	ों, जमानतियों को इस सूचन	। के प्रकाशन की तिथि से 60	2.00 pm. Last date for submission of bids- 18/12/2023 at 3.00 pm. Technical Bid opening 19/12/2023 at 3.30 pm. (if possible). For details visit https://mahatenders.gov.in All documents are mentioned in the
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Quarterly Financial Results are available on the website www.uni-info.co.in 3. The above Un-Audited Results were reviewed by t	Stock Exchange website	www.nseindia.co	om and on the compa	1У किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह रहित) वित्तीय तहत प्रतिभूत आस्तियों/चंधक सम्पत्ति का कब्जा	आस्तियों के प्रतिभूतिकरण करने के लिए भावी कदम	एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 उठाये जायेंगे।	(4) तथा प्रतिभूति हित ऑ	धेनियम, 2002 के प्रवर्तन के	tender document should be scanned & uploaded without which price bid will not be opened. Tenderer is not allowed to participate if action like
<ol> <li>The above Un-Audited Results were reviewed by t meeting held on 9th November, 2023.</li> <li>ace : Indore (M.P.)</li> <li>te : 09-11-2023</li> </ol>		or and on behalf ( SD/- (KIS)	of the Board of Directors at the Board of Director HORE KUMAR BHURADI	rs फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है। A) रयान : मध्य प्रदेश, तिथि : 10 नवम्बर,				है. जिस पर बजाज हाउसिंग उसिंग फाइनेंस लिमिदेड	termination of contract is taken against him / her in past. Advt No : 647/PR, Executive Engineer (Electrical) Dt : 08/11/2023 N.M.C., Nagpur
अजीज हसन एवं श्रीमती शाहीन आबिद पति श्री 135, 136, 140/1, 130	संपत्रियों का विवरण दिनें. डिलक्स - डी 599, सर्वे नं. 192/111/2, 111/2, 97, 92/1, 94/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 3, 104/3, 93, 96/2, 199/96कअ/2, 82/1/1, 104/24कअ, राजस्व का किस्सा है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, 5, 136, 140/1, 130, 131/1/2, 142/1/1, 146/2/2, ग्राम वागफेवा पर स्थिवन, तर्सरील हुजुर, जिला मोपाल (नगर पालिका					बकाया राशि (र) ₹ 14,87,474/-	आरक्षित मूल्य (१) ₹	घरोहर राशि (10%) (र) ₹	पालता मानदेश आषु पूर्व मीडिक मोगरता ए. उमारिवाल कि आयू 23 संबंध 2023 (हिकि-की तारीख) को 55 वर्ष ये अधिक नहीं होनी चाहिए, स्नालक्वेल की डिवी जीजायता- सिटि विषयों, गांदूराक्रमों में या निर्दिष्ट व्यावसाधिक वोगरता के साथ स्नालक की डिवी प्राप्त होने जातिग-
अजीज हसन एवं श्रीमती शाहीन आविद पति श्री आबिद हसन खाता नं. 103, 104/3, 93, 96/2 135, 136, 140/1, 130 वार्ड नं. 62), एवं कॉलोनी व	2, 199/96कअ/2, 82 ), 131/1/2, 142/1/ जेन्यु मिनाल रेसीडेन्सी वे	/1/1, 101/2 /1,146/2/2, इनाम से जाना जा	कअ, राजस्व का हिस्स ग्राम दामखेड़ा पर स्थि ता है, <b>क्षेत्रफल : 74.</b>	ा है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, त , तहसील हुजुर, जिला भोपाल (नगर पालिक <b>12 वर्ग मीटर , वतुर्सीमा : पूर्व</b> : डिलक्स नं डी -	25.10.2019 11.01.2021 (भौतिक)	₹ 14,87,474/- + व्याज एवं अन्य खर्षे	₹ 27,95,000/-	₹ 2,79,500/-	ु उम्मीदवार की आयु 23 नवंबर 2023 (रिक्ति की तारीख) को 55 वर्ष से अपिक नहीं होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री अपिमानतः निर्दिष्ट विषयों / पाट्यक्रमों में या निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी
अग्र रामकृष्ण गौर पिता श्री नरेन्द्र कुमार गौर एवं श्रीमती प्रतीमा गौर पिता श्रीमती प्रतीमा गौर पिता भी नामकृष्ण गैन         प्लॉट नं. डिलक्स - डी - 56 103, 104/3, 93, 96/2 135, 136, 140/1, 130	8, सर्वे नं. 192/111/2 2, 199/96कअ/2, 82 0, 131/1/2, 142/1/	2,111/2,97, /1/1,101/2 /1,146/2/2,	92/1, 94/2, 102 कअ , राजस्व का हिस्न ग्राम दामखेड़ा पर स्थि	. 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 11 है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, त , तहसील हुजुर, जिला भोपाल (नगर पालिक	08.07.2019 11.01.2021	₹ 14,89,046/- + व्याज एवं	₹ 26,80,000/-	₹ 2,68,000/-	थी। अनुसुधित गाणिवक कैंते (रहासीकी) 'विलेष सांसन (रफसाई)' निर्ताष खेत्र में सार्वकरि के के कांग्रजों में 21 जंब 2023 को नुस्ताम 1 जर्क के दिला आतंत को दि, दिसारे 2 साल का पोलालन अनुसा अधिस्तत अन्साराष्ट्रीय किंगु (निर्ताक प्रजुल्वक के के के में हो और 18 वर्ष के अनुभव में से नुस्तम 2 वर्ष का अनुभव तोई हला के नेचे उन्जतम सार के दर एर होना चाहिए। सरकारी अधिकारीजी के लिए निर्तान्द्रीक सामदर्श्व
खाता नें. 00203010000018 श्री सुईद मोहम्मद याह्रया प्लॉट नं. 527, एव कालाना क	-593, <b>उत्तरः</b> डिलक्स 8, सर्वे नं. 192/111/2	नंडी-567, <b>दक्षि</b> , 111/2, 97,	ण:डिलक्सनंडी -56 92/1, 94/2, 102	103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102,		अन्य खर्च	10,00,0007	2,00,0007	<b>थी</b> 2. भारत सरकार में निदेशक, श्रिशक सामतर या उससे नोड़ परासीन अधिवार भारतीय सेवा अभिसारी . केंग्रेय सेवा समूर एक अभिकारी निवने-जुन्दता 15 वर्ष का अनुभव हो, विवर्ष भारत सरका के सेविनाल आ सामित क कर्म में, जिला अधोदागिक जिलकार, अंतरान्द्रीय वापारर सा निवाद का के सेव में 2 वर्ष का अनिवार्य अनुभव हो, सिकार या अंतरान्द्र सर पार परासीन अधिकारी जिन्दे जुन्दता 15 वर्ष का अनुभव हो, सिसमें कि तो आदीगिक जिलकार या अंतरान्द्र सर पार परासीन अधिकारी जिन्दे जुन्दता 15 वर्ष का अनुभव हो, सिसमें कि तो आदीगिक
एवं श्रीमती कहकशां याह्या पति सईद मोहम्मद याहया	), 131/1/2, 142/1) गे  न्यु मिनाल रेसीडेन्सी के	/ 1, 146/2/2, नाम से जाना जाव	ग्राम दामखेड़ा पर स्थि ता है, <b>क्षेत्रफल : 74.4</b>	ड़ा है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, त , तहसील हुजुर, जिला भोपाल (नगर पालिक <b>2 वर्ग भीटर , चतुर्सीमा : पूर्व :</b> 7.50 मीटर चौड़	11.01.2021	₹ 14,76,930/- + व्याज एवं अन्य खर्ष	₹ 27,95,000/-	₹ 2,79,500/-	कट-ऑफ लिबि 23 वंग्रेस 2023 होगी। समाएग एसमी पर्य पार्थित मीलिक आपाय रहोने चाहिए अन्य पात्राता नियमों और तातों के विवरण के लिए, कृत्यवा "रिक्रियों और सिकारिंग" देव के तहत https://fib.org/ail.urfaturetade आवेदन केसे को: दर्व्युक्त व्यमिलार <u>https://fib.org.in</u> " पर 'रिक्रियों और सिकारिंगे" देव के तहत जल्दर्थ्य दिन के माप्या के अंतवाला अंगेरल वन स्वत्य के या मी <u>https://www.reasch.nct.ort/ail.ort</u>
पिता औ रवीन्द्रनाथ घोष एवं श्रीमती काबेरी घोष पति श्री संजीब कुमार घोष खाता नं.	2, 199/96कअ/2, 82 ), 131/1/2, 142/1/ गेन्यु मिनाल रेसीडेन्सी के	/ 1/ 1, 101/2 / 1,146/2/2, नाम से जाना जात	कअ , राजस्व का हिस्न ग्राम दामखेडा पर स्थि ता है, <b>क्षेत्रफल</b> : 74.4	103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, II है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, त, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (नगर पालिक <b>2 वर्ग मीटर, चतुर्सीमा : पूर्व :</b> 7.50 मीटर चौड़ा		₹ 14,88,959/-			पर विश्तक करके आयेदन कर सकते हैं। आयेदन की अंतिम तिथि: 06- दिसंबर-2023 शाम 5:00 बजे तक नोट: शुद्रिपत्र सहित अंतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, केवल ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाएंगे।
श्री योगेश वर्मा पिता श्री राजमनी संपत्ति के सभी प्रमुख अंग प्लॉ वर्मा एवं श्रीमती शलीनी वर्मा पति श्री योगेश वर्मा, श्रावगं व स्वार्ग संस्था र 74.42 वर्ग गीटर,	f, एरियाः 74.42 वर्गगीटर,							₹ 2,21,000/-	אריי לופרא עופט שונוגע ווייניט איז און אוויר פו, איירו של איז
		न्स नं ई - 445.	, उत्तर : डिलक्स नं :	, तहसाल हुजुर, मापाल - 462001, - 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चौड़ी सड़क	10.09.2020 29.10.2021 (भौतिक)	+ व्याज एवं अन्य खर्भ <b>₹</b> 14,87,466/- + व्याज एवं अन्य खर्भ	₹ 22,10,000/- 22,10,000/- 22,10,000/-		
00203010000023 चतुसामा : पूर्व : 7.5 मोटर च श्री सुजित शसमल पिता श्री विष्णु प्रसाद शसमल, श्रीमती उमा शसमल, वात श्री सुजित संपत्ति के सभी प्रमुख अंग प्लॉ एरिया : 7 4.42 वर्ग मीटर, चतुर्सीमा : पूर्व : 7.5 मीटर ची	ोड़ी सड़क <b>, पश्चिम</b> ः डिलव ट नं. डिलक्स - ई - 411,	न्यु मिनाल रेसीडे	न्सी, ग्राम कोलुआ कल		10.09.2020 29.10.2021	₹	₹	2,21,Ò00/- ₹	राष्ट्रीय उंगनी सिंधि नायाधिकरण, फंडीमड कि, संदेशक के राज्य उंपनी गाविका सीले (मिएन) 41 (मीएनडी/एकडारार्या;2023 से संसंधित कंपनी जावेदन सीए (मीएन) 26 मीएनडी/एकडारार्या;2023
00203010000023 चितुसित भी पत्रि के निरुदे ने निर्व ने	डी सड़क <b>, पश्चिम</b> : डिलव 'टनं. डिलक्स <b>- ई</b> - 411, ोडी सड़क, <b>पश्चिम</b> : डिलव 0, सर्वे नं. 192/111/2 2, 199/96क3/2, 82 , 131/1/2, 142/1) ते - यु मिनाल रेसीडेन्सी वे	न्यु मिनाल रेसीङे स्स नं ई - 437, , 111/2, 97, - / 1/1, 101/2 / 1,146/2/2, इनाम से जाना जा	न्सी, ग्राम कोलुआ कल , <b>उत्तर</b> : डिलक्स नं इ 92/1, 94/2, 102 कअ , राजस्व का हिस्न ग्राम दामखेड़ा पर स्थि ता है. <b>क्षेत्रफल</b> : <b>74.4</b>	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चोड़ी सड़क , तस्सील हुजुर, मोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिलक्स में ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 18 ग्राम कोलुवा कालम पंस 132, 133, 134 त, तहसील हुजुर, जिला मोपाल (मर पारिक	10.09.2020 29.10.2021 (भौतिक) 10.09.2020 29.10.2021 (भौतिक) 08.07.2019 11.01.2021	₹ 14,87,466/- + व्याज एवं अन्य खर्षे ₹	₹ 22,10,000/- ₹	2,21,000/- ₹ 2,21,000/-	राष्ट्रीय कंग्नी विधि न्यायाधिकरण, पंत्वीपड़ पिट, वंदीपड़ के रामस कंपनी याधिका भी भी (पिए) 41 /भीएरवी/एसअरावां/2023 से पंत्वीपित वेपनी आंदेवन भीए (पीएए) 26 /भीएरवी/एसअरावां/2023 (कंपनी आंदिनय, 2013 की पारएर 200,222 के जोग) कंपनी वीओनिय, 2013 की पारएर 200,222 के जोग) कंपनी वीओनिय, 2013 की पारएर 200,222 के जोग) हे से प्राप्त प्रेरी के प्राप्त के प्राप्त में राम प्रान्नेक संवेधित मेरपरारक्षे के पीय व्याप्त्या की संयुक्त योजना के विषय में उम्रा
00233010000023 पुर्वुतामाः पुर्व 7.5 मीटर वा क बुद्धिक समाम्ब तिम भी मिष्णु प्रायत समाम्ब, श्रीमती प्रायत समाम्ब, श्रीमती प्रायत समाम्ब, श्रीमती प्रायत में सुत्रि प्रायत स्थ. 4.4.2 वर्म मीटर प्रत्यत में सुत्रे वा स्था भी संवेध वाम सिमा प्रती श्री सुरेश वा मां भी संवेध वाम सिमा वार्व्व श्री सुरेश वा मां भा त्ये स्था स्थान भी संवेध वाम सिमा प्रती श्री सुरेश वा मां भा त्ये स्था स्थान स्था भी स्थानी या नित्र भी आशीष वामी भी आशीष वामी	ोडी सड़क, <b>पश्चिम</b> - डिलव 'द नं. डिलवस्स - ई - 4 11, Iडी सड़क, <b>पश्चिम</b> - डिलव 2, 199/96कअ/2, 82 , 199/96कअ/2, 199/96 ,	न्यु मिनाल रेसीडे त्स नं ई - 437, , 111/2, 97, ; / 1/1, 101/2' / 1, 146/2/2, 5 नाम से जाना जा नंई - 411, <b>दक्षि</b> 2, 82/1/1, 111/2, 111/2 2, 82/1/1, 148/ डेन्सी के नाम से जा	न्सी, ग्राम कोलुआकल , उत्तर : डिलक्स नं 1 92/1, 94/2, 102 कअ, राजरव का हिस- ग्राम दामखेड़ा पर स्थि ता है, क्षेत्रपत्न : 74.4 म्रा.डिलक्स नं ई - 405 2, 97, 92/1, 94/2 01/2कअ, राजस्व व (2/2/2, ग्राम दामखेड़) ाना जाता है, क्षेत्रपत्न :	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चोडी सड़क , तहसील हजुर, मोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिलक्स में ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 11 है ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 134, . तहसोल हुजुर, किला मोपाल (नगर , तहसोल हुजुर, किला मोपाल (नगर 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 16स्सा हे ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 16स्सा हे ग्राम कोलुवा कालन एवं 132, 133, 104, 42 <b>art मीटर , न</b> .50 मीटर	10.09.2020 29.10.2021 (+11तिक) 10.09.2020 29.10.2021 (+11तिक) 08.07.2019 11.01.2021 (+11तिक) 08.07.2019 11.01.2021	₹ 14,87,466/- + व्यान एवं अन्य क्वे ₹ 14,75,283/- ₹ 14,87,002/-	₹ 22,10,000/- ₹ 20,60,000/-	2,21,000/- 2,21,000/- 2,06,000/- ₹	राष्ट्रीय कंपनी विधि ज्यायाधिकरण, प्रे स्वीपद वेट, संवीपद के साख कंपनी याखिला सीपी (सीएए) 41/सीएमबी/एकसराम्युं2023 कंपनी याखिला सीपी (सीएए) 25/सीएमबी/एकसराम्युं2023 (कंपनी जीमियम, 2013 की सापर 2023 22 के कावैन) (कंपनी जीमियम, 2013 की सापर 2023 22 के कावैन) हे से प्राइटेट सिपिटेड काम टाटर प्रकार प्रदेश काम एवर सीवाप सिपिटेड ताम उनके संबंधीया सेपरपारकों के सीप व्यस्त की संजुध कोजना के विषय में स्वा उनके संबंधीया सेपरपारकों के सीव व्यस्तमा की संजुध कोजना के विषय में स्वा जाने संबंधीया सेपरपारकों के सीवा वार्यमा स्वा स्वा नामीकर (CIN-17408/H2020PTC111111), कंपनी जीमीयम, 2013 के आवा गोटन एक प्राइटेट सिपिटेड कंपनी, निसका संजुधन सर्वाचा स्वा मीनद, त्यांत 4 यादिका स्व जीन वन, इंडसिट्स स्व: सुरायमा, संदेयमा-20207 स्वा टाटा एकसाईए एकसाइन सिपिटेड (CIN-10420472013PLC111543), अली कोपीमन 1956 के जोने माठी एवच परिवार सिपिटेड कंपनी, निसका संक्रेया नामीनक संदेशिय स्वाटन
00203010000023 विद्युत्सामां पुष्टा 7.5 मोटर वा के चुकि समाम्ब तिम से किष्णु प्रसार समस्त, श्रीमती किष्णु प्रसार समस्त, श्रीमती प्रवाश समस्त सी श्रेष्ठि सा संप्रत सा श्री प्रति ( 2.4.4.2 वर्ष नी दिप्त प्रवाई सा स्वार्थ से प्रवाई से सा स्वार्थ से 103, 104/3, 93, 96/7 भी सर्वो सिमरान सम् 103, 136, 140/1, 135, 136, 140/1, 135 सी अपरी सम्बा 2020301000028 से स्वार्थ से दिलस्त नं ई भी आरोपी बमी विता स्वार्थ से वी देवी वर्ष वा आ आरोपी बमी	डि सङक, <b>परिवम</b> - डिलव टन - डिलक्स - ई - 411, डिसेस्डक, <b>परिवम</b> - ईल्क्स ठ, सर्वे ने 192/111/2, 192/11/2, 142/11 - 438, <b>उत्तर</b> - (172, 142/17) - 439, <b>उत्तर</b> - (172, 142/17) - 439, <b>उत्तर</b> - (172, 142/17) -	न्यु मिनाल रेसीडे (स. नं ई - 437, , 111/2, 97, /1/1, 101/2/ /1, 146/2/2, नाम से जाना वा नाम से जाना वा रं ई - 411, <b>दक्षि</b> रं ई - 411, <b>दक्षि</b> रं ई - 411, दक्षि रं क्षि के नाम से जा नाम से ज	न्सी, ग्राम कोलुआकल , उत्तर: डिलक्स नं 1 92/1, 94/2, 102 कअ, राजरब का दिस्- ग्राम दामखेड़ा पर स्थि ग्रा दिलस्स गर्न स्थ प्रा डिलस्स गर्न स्थ 2, 97, 92/1, 94/2 01/2स्प्र, साजस्व व प्र2/2, ग्राम दासेख्य दक्षिण:डिलक्स गर्ड 3 (भूतल) औ अपार्ट 3 (भूतल क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 3 (भूतल) औ अपार्ट	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चोडी सड़क , तहसील हुजुर, मोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिलवस मं ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 18 ड्राम कोलुवा कालन पर्व 132, 133, 134, 1, तहसोल हुजुर, किला मोपाल (नपर, 1, तहसील <b>2 वर्ग मीटर, बनुसीमा: पूर्व</b> : 7.50 मीटर चोड , 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 16 स्पिस है, डाम कोलुवा कालन पर्व 132, 133, पर स्थित , तहसील हुजुर, जिला मोपाल (नपर, 407 टं-2, प्लाट मं.3 एवं 4, धीप नगर, ख़सरा मं वार्ज- 61, जिला- मोपाल (नपर, ) क्षे <b>राज</b>	10.09.2020 29.10.2021 (vilfare) 10.09.2020 29.10.2021 (vilfare) 08.07.2019 11.01.2021 (vilfare) 08.07.2019 11.01.2021	₹ 14.87.466/- - आग रख अन्य कर्ष ₹ 14.75,283/- 14.87.002/- - #याज रख अन्य कर्ष अन्य कर्ष इ 14.88.943/- + #याज रखे	22,10,000/- 20.60,000/- 23,80,000/- ₹	2,21,000/- 2,21,000/- 2,06,000/- 2,38,000/- ₹	राष्ट्रीय कंगनी विधि नामायिकरण, संवीपड फि, संतीपड फे, साम कंपनी साहित्य, 2013 जी सारप्र 2004 स्थित्य से पंसंधित कंपनी आनित्य, 2013 जी सारप्र 2004 224 कंसीन) कंपनी आनित्य, 2013 जी सारप्र 2004 में में तिमा उनके संग्रेसिय संप्रतारकों के दीन व्यस्ता की संपुष्ठ मोजन के सिथा में तिमा उनके संग्रेसिय संप्रतारकों के दीन व्यस्ता की संपुष्ठ मोजन के सिथा में तिमा उनके संग्रेसिय संप्रतार के दीन व्यस्ता की संपुष्ठ मोजन के सिथा में स्रित्य साइदेह लिटिवेट काम, तिस्ताव संजीक सार्वाय सुरही मोजिन, 2013 के सांग मोठि स्थ प्रायहेत सिरिवेट काम, तिस्ताव संजीक सार्वाय स्थान मोजिन, 2014 के साम साइदेह सिरिवेट कंग्रेस, तिस्ताव संजीक सार्वाय स्थान मोजिन, 2014 के साम राज्य त्या राज्य स्थान में साईदिव्य कंग्री, तिस्ताव संजीकन सार्वायक देशित्य स्थान राज्य त्या राजी संख्या की साईदिव्य कंग्री, तिस्ताव संजीकन सार्वायक देशित्य स्थान राज्य त्या स्थाकी सिर्विवेट (CIN-US22001H2019FC011153), अंग्री आनियन, 1956 के आनी न मीठा एक पालिक सिरिवेट कंग्री, तिसाव संजीकन कार्यायन देशित्य स्थान राज्य स्था स्थाकी सिर्विवेट (CIN-US22001H2019FC011153), कंग्री आनियन, 1956 के आनी न मीठा एक पालिक सिरिवेट कंग्री, तिसाव संजीकन कार्यात स्थान राज्य स्था स्थान सिर्विवेट (CIN-US22001H2011153), कंग्री आनियन, 1956 के आने न मीठा एक पालिक सिरिवेट कंग्री, तिसाव संजीकन कार्यात स्थान संस्थान स्थान
00203010000023 णवुर्तामाः पूर्व १.७. भारद था क दुविक शामल दिता भी जिष्णु प्रतापत समाल, श्रीलति आप प्रताप समाल, श्रीलति प्रतापत का साल, श्रीलति प्रतापत का साल, श्रीलति प्रतापत का साल, स्रे 00203010000028 प्रतापत के स्ति प्रयाप भारती किराला सम वाउंत्र, 136, 140 / 1, 137 भारती किराला सम वाउंत्र, 136, 140 / 1, 137 प्रतार में राज्य, 136, 136, 140 / 1, 137 प्रतार में राज्य, 136, 136, 140 / 1, 137 प्रतार में राज्य, 137, 135, 136, 140 / मी आरोगि वर्मा पिरा प्रतार में राज्य, 137, 135, 136, 140 / 138, 135, 136, 140 / 139, 137, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148	डि सडक, <b>परिवम</b> : डिलव टनं . डिलक्स . ई – 411, डि सडक, <b>परिवम</b> : डिलव ), सर्वे नं 192/111/2, , 199/96क्स/2, 92 ), 131/1/2, 142/11/2, 142 , 138, <b>उत्तर</b> : डिलक्स/2, ब्र यु मिसाद संस्वीरुपी वे , 130, 131/1/2, 14 (ज्वर प्रक फ्रीस्टोन्ड द्वाप्र प्र बंद रुप्क फ्रीस्टोन्ड द्वाप्र प्र वा रुप्त की जमीन का मा सोटन्ड रख्वासी मकान मं.	न्यु निमाल रेसी है (स. न. ई 437, (. 111/2, 97, 7, 1/1, 101/2, 97, (. 148/2/2, 5 नम से जाना जा 5 नम से जाना जा 5 नम से जाना जा 5 नम से जाना जा 11/2, 111/2 2, 82/1/1, 146/ इन्सी के माम से जा 11 पलेट में जा 9 पलेट से जी मा पत तरसील हुम विस्ता श्री चंद्रन 7 60, नगर निमा म में सिथ्यत है। खुल <b>के</b>	न्सी, प्राम कोलुआकल , जत्तर: डिलक्स मं 1 92/1, 94/2, 102 कअ, राजस्व का हिन- प्राम दामसेज पर स्थि प्रा. डि. सेवफल : 74.4 मा. डिलक्स मं ई - 400/2 क्य, जाजस्व क ए/2/2, प्राम दासखेक दिक्रिण: डिलक्स मं ई 3 (प्रतल) औ वापार्ट्स, यूर, प्राम द्वार्सी 3 (प्रतल) औ वापार्ट्स, या म प्रजापति, बलुसीम वार्ड कमॉक 66, प. इ. द ावफल 600 वर्षाशीट,	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चीडी सड़क , तहसील हुजुर, भोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिंतलस नं ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 16241 8, माम अंग्रेज्व कालन एवं 132, 133, पर स्थित , तहसील हुजुर, जिला भोपाल (नगर 74.42 वर्म मीटर, बहुर्सीमा: पूर्व : 7.50 मीटर 407 टि-2, प्लाट नं. 3 एवं 4, चीघ नगर, खसरा नं वार्ड मं.61, जिला - भोपाल (स.प.). क्षेत्रफल द्युद्ध - प्लाटर नं. 3, द्युं, ने स्थायन - स्वेटर नं.जी. 4, भोगिक : अंग्रेसती लिल्मी गुदात पति श्री सुरेश वंड भागिक : व्यक्ति लिल्मनी गुदात पति श्री सुरेश वंड	10.09.2020 29.10.2021 (+1)(7x) 29.10.2021 (+1)(7x) 08.07.2019 11.01.2021 (+1)(7x) 08.07.2019 11.01.2021 (+1)(7x) 08.07.2019 11.01.2021 (+1)(7x) 09.02.2023 17.06.2023 17.06.2023 23.05.2022	₹ 14,87,466/- + स्थान एवं अन्य खर्षे ₹ 14,87,002/- + स्थान एवं अन्य खर्षे ₹ 14,88,943/- + स्थान एवं उत्तर खर्षे ₹ 23,86,596/-	22,10,000/- 20,60,000/- 23,80,000/- 20,60,000/- 3	2,21,000/- 2,21,000/- 2,06,000/- 2,38,000/- 2,06,000/- ₹	राष्ट्रीय कंगनी विधि जायाधिकरण, संदीपत केंग, संदेशिय के सामा कंपनी साहिका सीने (पिए) 41 (नीएससीएससपाई/2023 में पॉलिंग कंपनी आनित्म, 2013 में पाराएं 200232 के सामिश कंपनी ऑनियन, 2013 के सिप में तथा तथा उनके संपति वे त्यादारकों के सीय वर्ष्यका की संपुक्त सेजना के विषय में तथा दिलेस माइनेट लिमिटेट आप टा( प्रदान्धा लिमिटेन साम एपर इडिया लिमिटेन तथा प्रत्ये संपति वे त्यादारकों के सीय वर्ष्यका की संपुक्त सेजना के विषय में तथा दिलेस माइनेट लिमिटेट (INLU 2009HR2020PTC111111), संगनी ऑनियल, 2013 के सामिश्र वा साने तथा, इडियुट्स स्पेट, प्रत्या, दिलाका-दिय्या दिलेस माइनेट लिमिटेट (INLU 2009HR2020PTC11111)), संगनी ऑनियल, स्टान से साम यहिव्या स्विनेद स्वार स्प्रतिदेव अपनी, तिसास संजीवृत्म कार्यात्म दुनिया स्विनिय, राष्ट्र पर सीच प्रत्या नीयत, सामा के प्रतिप्रत संदर, या दिया सीनियत, साहेन से साम प्रत्ये स्वानी साम के सामित्य से त्या स्वान्य सुवानी स्वान, स्वाने स्वीनिया, 1956 के साम पर दुनिया सिनिदेव (INLU 102200HR202PTC111153)), कंगने आंगियन, 1956 के आंगि तथा स्वान स्वान स्वीन सिनिदेव सिन्दी तिस्वार स्वीन, या स्वान स्वान स्वान सुवान सामिश्र स्वान स्वान सिन्दे सिनिदेव स्वान, तिस्वान संजीवृत्म सान्या स्वीन सान साम स्वान स्वान स्वीन स्वान सिनिदेव सामी, तिसास संजीवृत्व सात्मा स्वीनियान, 1926 के साम पर दुनिया सिनिदेव (INLU 102200HR202PTC111153)), कंगने आंगियन, 1926 में तथा स्वान स्वान सान स्वान स्वान स्वीन सान स्वान स्वीन सान स्वीन तथा स्वान स्वान स्वान सान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान सान स्वान स्वान पारक्वकार्या के स्वान सिन्द स्वान स्वान स्वान सान स्वान साम सिनिद स्वान स्वान सान स्वान सान स्वान सान स्वान सान सान स्वान स्वान स्वान सान स्वान स्वान स्वान सान सान सान सान स्वान सान सान स्वान स्वान सान सान सान सान सान सान सान सान सान स
00203010000023 विद्युत्तिमाः पूर्व : 7. 5 मीटर वा के दुविक सामल किस भी संवेति के सभी प्रयुख अंग स्त्री कियु जास कर सामल, भीसती प्रवार कर सामल, भीसती भी संवार वाम दिसा स्वर्ते सी सुरेश वर्मा (वा 103, 104/3, 93, 96/1) भी संवारी प्रवार कर सामल प्रवार कर 135, 136, 140/1, 133 वार्व तो दुवेश वर्मा वार्व तो वो स्वर्ग वार्व संत्री सरेश वर्म परिता स्वर भी सेशवार वार्य वार्व तं . 62). एवं को तिनो ने व 00203010000028 पी स्वरार सामर प्रवार भा वार्व तं . 62). एवं को तिनो ने व 00203010000028 पी स्वरार कर सामर प्रवार संत्री सरेशवार वार्य संत्री सरेशवार वार्य संत्री सरेशवार वार्य संत्री संत्री स्वर्ग पति भी आशीष वर्मा दिता स्वर औं स्वरार वार्य संत्री स्वर सामर प्रवार सी वार्व संत्र . 1988 स्वर कर सामर प्रवार प्रवार विक्रिय क्रमती स्वर 84 वार्व प्रवार ने स्वरी स्वर 84 वार्व प्रवार ने सामर प्रवार सी वार्व संत्र . 1988 से विक्र स्वर प्रवार ने स्वर से दे व्यक्त प्रवार वार्व	डे से सडक, पश्चिम - डिलव 'ह'ने. डिलयस - ई - 411,  डी सडक, पश्चिम - डिलव (), सर्वे नें, 192/11/2,  37/14/2, 142/11, )ते 'चु मिनाक सेश्वे - (182/14/2, )ते 'चु मिनाक सेश्वे - (182/14/2, )ते 'चु मिनाक सेश्वे - (182/14/2, )ते 'चु मिनाक सेश्वे - (182/14/2, )त्राठ, 13/1/(2, 1- (193/14/2,	-यु निमाल रेसी डे 	न्सी, प्राम कोलुआकल , जत्तर: डिलक्स मं 1 92/1, 94/2, 102 कअ, राजरुव का हिन्- प्राम दामखेड़ा पर स्थि ता है, क्षेत्रफल मं हैं - 402 2, 97, 92/1, 94/2 2, प्राम दामखेड़ा (2/2, प्राम दामखेड़ा (2/2, प्राम दासखेड (2/2, प्राम दासखेड (2/2, प्राम दार्बिण: डिलक्स मं द्विषण: डिलक्स नं ह 3 (पूलल) श्री अपार्ट (रू, प्राम - खलुरी कतां, वार्ड कमांक 66, प. इ. द उक्कर 600 वर्षाफीट, बर 59, दक्षिण - प्लॉट सम्पत्ति को आरंदित म् वं प्रे पहले सेन्द्र कैं को वं संपत्ति क्रमांक 10 वं यं संपत्ति क्रमांक 10 वं वं संपत्ति क्रमांक 10 वं तं संपत्ति व्र संपत्ते तं संपत्ति क्रमांक 10 वं तं संपत्ति क्रमांक 10 वं तं संपत्ते क्रमांक 10 वं तं संपत्ते क्रमांक 10 वं तं संप	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चीडी सड़क , तहसील हुजुर, मोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिलवस नं ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 103, 104/1, 104/1, 103, 103, 104/2, 103, 104/1, 104/1, 104/1, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 103, 104/2, 103, 104/2, 103, 104/2, 103, 104/2, 104/2, 104/2, 103, 104/2, 104	10.09.2020           29.10.2021           (भौतिक)           10.09.2020           29.10.2021           (भौतिक)           10.09.2020           29.10.2021           (भौतिक)           08.07.2019           11.01.2021           (भौतिक)           08.07.2019           11.01.2021           (भौतिक)           09.02.2023           17.06.2023           (भौतिक)           23.05.2022           16.09.2023           (भौतिक)           24.05 दरात जानक।           24.04 देख के दातो / अगि           24.05 दरात जाने भौ सौ           16 स्वा से वी सी           17 सादे जौ सी           17 सादे बा सी           16 स्वा से वौ सी	₹ 14,87,466/- + आग एएं अन्य खर्म ₹ 14,37,002/- + आग एएं अन्य खर्म ₹ 14,88,943/- + आग एएं अन्य खर्म ₹ 23,86,596/- + आग एएं अन्य खर्म ₹ 23,86,596/- + आग एएं अन्य खर्म ₹ 14,09,581/- + आग एएं अन्य खर्म ३, सीवद दिल्फाफ के ), सीवदद दिल्फाफ के ोने ने दाला दिकी में जन्म खर्म होने ने दाल में किनी में ता की दिमा पर द्वापर द	22,10,000/- 22,10,000/- 20,60,000/- 23,80,000/- 23,80,000/- 23,80,000/- 20,60,000/- 17,11,000/- 17,11,000/- 21,70,000/- 21,90	2,21,000/- 2,21,000/- 2,21,000/- 2,06,000/- 2,06,000/- 2,38,000/- 2,38,000/- 2,06,000/- 2,06,000/- 2,17,000/- 2,17,000/- टीजीएस,/ऑन्लाईन ряца 1 - 9 के लिए सरा भोपल शाखा में 8 जापन (12)पकृत की उत्तम वानकारी के की उत्तम वानकारी के जी दारा नही होगा। (6). इंच 22.11.2023 व खापन और असफल	राष्ट्रीय कंपनी सिप्ते नावाधिकरण, संदीपड़ कि, संदीपड के राज्य कंपनी आदिव भीने (सिप्ट) 41 (मीएससी/एसआरमाई/2023 कंपनी आदिव भीने (सिप्ट) 26 (मीएससी/एसआरमाई/2023 (कंपनी आदिवन, 2013 की वापर (20222 के कोने) करनी आदिवन, 2013 की वापर (20222 के कोने) करने कोनियन, 2013 की वापर (20222 के कोने) करने कोनियन, 2013 की वापर (2022) के कोने प्राय मिल्ट के मारको में रोग मार्ग के स्वार्थन के साहब के साहबेट सिप्टिक करने, दिसाब मंग्रीक कार्यन पूर्वा मिलिस्ट का प्रायेक स्वार्थन के साहब के साहबेट सिप्टिक करने, दिसाब मंग्रीक कार्यन पूर्वा मिलिस्ट का प्रायेक करने के साहब में साहबेट सिप्टिक करने, दिसाब मंग्रीक कार्यन पूर्वा मेलिस, 2015 के कोने मार्गित प्राय क्राइट किस्टिक करने, दिसाब मंग्रीक कार्यन प्राये मिलिस (2014) कार्य का कोन जन, इंडडिएनस एटंड, नुसाम, हरियान-122007 प्राविककार्य के किस्टिक (2014) प्राय प्राय प्राय प्राय प्राय क्राइट सिप्टिक कार्यन के किस्ट कार्यन, वाप्राय प्राय प्राय प्राय क्राइट सिप्टिक कार्य क्रिक्ट के किस्ट के कार्यन कार्यन कार्यन के कीने प्राविककार्य के किस्ट (2014) प्राय प्राय प्राय प्राय क्राइट सिप्टिक कार्यन, तिरक्ष के कीनेक कार्य क्राइन कार्यन स्वीनियान, 1966 के कोन मार्गित प्राय किस्टिक सिप्टिक कार्यन, तिरक्षत संवीन कार्यन की कार्यन करने कार्य मार्यक्रिक के किर मार्यन किस्ट के किस्ट के कार्य क्राइन कार्यन करने के कीनेक कार प्राय क्राइन के कीनिय कारा प्राया एस्वर्यम्प प्रायक्रिक कार्यन के कीनेक कार कार प्राय प्राय क्राइक कीर्यन के कार्य प्रायक्रिक के कार प्राया कार कीनेक कार कार की कार कार प्राया क्राइक कीर के मार्या मार्यक की कीनेक कार कार कार कार प्राया के कीनेक कार प्रायाक्रिक के कार प्राया क्राइन करनेक की कीनिया, 2015 की कार्य प्राया क्राइक कार कीर्या क्राव कार
002030 10000023 चिंतुसिमा 'सुर' 7. 5 मोटर वा के चुकि समाम कि की सी परिवा के समी प्रमुख अंग प्ली किषणु साम समास के सिक सी सी परिवा के समी प्रमुख अंग प्ली प्रथा साम साम की स्वर्थ कि सी सी परिवा के समी प्रमुख अंग प्ली प्रथा के सुरेश का बा का के 10000028 प्रथा के 105, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 136, 136, 142, 141, 136, 136, 140/1, 136, 136, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 136, 134, 135, 136, 140/1, 136, 136, 140/1, 134, 135, 136,	डि सङक, परिषम - डिलव टन . डिलक्स - ई - 411, . डिसेस्ड - प्रियम : डिलव 0, सर्व ने : 192/11/2, . (192/11/2, 192/11	-यु मिनाल रेसी डे 	न्सी, प्राम कोलुआकल , जसर : डिलक्स मं 1 92/1, 94/2, 102 कऊ, राजस्व का हिस्स् प्राम दामसेका पर स्थि प्रा. डि. सेमफल मं मिल्म प्रा. डि. सेमफल र 74.4 प्रा. डि. सेमफल र 74.4 प्रा. डि. सेमफल स्थ (२/२, प्राम - स्वर्ज्य क प्राय, जातर से क्रिफल दक्षिण : डिलक्स मं ई 3 (प्रतल) औ अपार्ट (२, प्राम - क्युरी क मा जाता है, क्षेमफल क दक्षिण : डिलक्स मं ई 3 (प्रतल) औ आपर्ट (२, प्राम - क्युरी क मा जाता है, क्षेमफल दक्षेमा के 66, प्र. ह. केमफल 600 वर्गफीट, बर 59, दक्षिण - प्लॉट संपर्स कि आरोर्स स्रा में निधारित निविदा फ से पहले मा मते. सी जि जियनेदारी होगी। 1 4.00 पुरी स्रे कता के ती लगाने वालो को बिस ता रायि को अलक सर में	- 404, <b>दक्षिण</b> : 7.5 मीटर चीडी सड़क , तहसील हुजुर, मोपाल - 462001, - 412, <b>दक्षिण</b> : डिंतवस नं ई - 410, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 102, 103, 104/1, 102, 103, 104/2, 168सा 8 प्राम कोयुवा कालन पर्व 132, 133, पर स्थित , तहसील हुजुर, जिला मोपाल (माप 74.42 वर्म मीटर, बदुर्सीमा: पूर्व : 7.50 मीटर 407 टि-2, प्लाट नं. 3 एवं 4, वीघ नगर, खरसरा नं वार्ड नं. 61, जिला- मोपाल (पा, प्र.), क्षेत्रफल न्यूद्र - प्लाटनं. 42, पर्वेश्वम - एतंट नं. जी-4, 407 टि-2, प्लाट नं. 3 एवं 4, वीघ नगर, खरसरा नं वार्ड नं. 61, जिला- मोपाल (पा, प्र.), क्षेत्रफल नं कट नं. 02, पार्वेश्वम - एतंट नं. जी-4, मोकि 21, खरसरा क्रमोक 176/1 का भाग, प्राम मोकि 21, खरसरा क्रमेली निराय मुदाय पति औ सुरेश घंट नं कट 61 टिक्स क्रिस्ट नं दार 12.2023 को सार्व 4.00 तंकन, सीमाओ, सम्पत्ति के सीर्थ को सार्व अध्र में 3 के स्थिन किसक द्वारा उजसत को सी लं मुत्य का 25% (ईप्रसडी भुगतान सहित) उसी ति ते सा कम्प्यमी द्वारा सम्पत्ति को युन्द के दिया प मुत्य का 25% (ईप्रसडी भुगतान सहित) उसी ति राय कम्प्यमी द्वारा सम्पति को युन्द के दिया प मुत्य का 25% (ईप्रसडी भुगतान सहित) उसी	10.09.2020           29.10.2021           (भौतिक)           10.09.2020           29.10.2021           (भौतिक)           08.07.2019           11.01.2021           (भौतिक)           08.07.2019           11.01.2021           (भौतिक)           08.07.2019           11.01.2021           (भौतिक)           09.02.2023           17.06.2023           (भौतिक)           23.05.2022           16.09.2023           (भौतिक)           वरेक ईप्रस्वे रावे भौती (4)           बेक क दार्वो / भौति           वे खेक दार्वो / भौति को           वि रखने वाले बोतीवा           (भौतिक)           (भौते क)	२           14,87,466/- - - अत्य खर्च           २           २           14,15,283/-           २           14,88,093/-           २           14,88,943/-           २	22,10,000/- 20,60,000/- 20,60,000/- 23,80,000/- 23,80,000/- 20,60,000/- 20,60,000/- 17,11,000/- 17,11,000/- 21,70,000/- 21,7	2,21,000/- ₹ 2,21,000/- 2,06,000/- ₹ 2,06,000/- ₹ 2,38,000/- ₹ 2,06,000/- ₹ 2,06,000/- ₹ 1,71,100/- ₹ 1,71,100/- ₹ 1,71,100/- टीजीएस,/जन्लार्ह्तन कमांक 1 - 9 के लिए सरा भोपाल शाखा में व डाएन्ट (राष्ट्रीपकृत कार्ट्स जिस करने का	राष्ट्रीय कंग्ली विधे नामाधिकरण, संवीपत्र पिए, थे वीएए देश्वरिए कं राष्ट्र कं पंसीपत कंपनी आदिन भीए (पिएए) 24 (गीएपदीएसअरवाय),2023 कं पंसीपत कंपनी ऑपिनम, 2013 की पारएर 200232 कं अभीभ) कंपनी ऑपिनम, 2013 की पारएर 200232 के अभीभ) काम उस्टे के प्रायं हारा प्रस्कृत के पीप अदाव के ताप उसके संगीध वेश्वरपाठी के पीप अदाव की पीप प्रस्क को कि पर में ताप उसके संगीध वेश्वरपाठी के पीप अदाव को पीप अदाव के विपन ताप उसके संगीध वेश्वरपाठी के पीप अदाव की पीप प्रस्क को कि पर में वारा काम उसके संगीध वेश्वरपाठी के पीप अदाव के पीप अदाव ताप प्रस्क के पाने के पीप अदाव के पीप अदाव के पीप के पीप के पिर के वारा प्रस्काई प्रस्कृत संगीध के पीप अदाव के पीप के पार्ट के पीप के वारा प्रस्काई कि त्यादि कर कि के प्रस्क की पीप के पार्ट के पीप के वारा प्रस्काई कि त्यादी के पीप अदाव के पीप अदाव के पीप के पार्ट का पीर वारा प्रायं के वार्ग नांग रह वार्थिक तिरिवेद कर्मनी, निस्ता पंत्रीक़ वार्थनी वेश्वरपाठन को जीनिया (2014) का प्रायं के त्यांने नांग रह वार्थिक तिरिवेद कर्मनी, निस्ता पंत्रीक़ वार्थनी देश्वरिक नाट्या वारा एस वर्षित हिन्दिद (CIV US2001H20019CU111543), कंगने ओनियन 1966 वंग लोकिक किंगीट (दार पार्ट प्रधानम) कि पिर का प्रतंक्ष के पीप्त का प्रायं के पी वारा का प्रायं के पीर्ट के प्रायं कि तिरक्ष के प्रतिक का प्रायं ही का प्रायं के पीक्ष वार, लेक्टर 16, एपरव 48, इंदरिवेद कर्मनी, निस्ता पंत्रीक़ वार्या के दीया विगनित के पार्य वारा क्रिकिट (CIV US2001H2001PCU1115139), कंगने वोनियान 1966 वं लोकुती यात करने के किंटक करानी, निस्ता के प्रायं के विश्वर के प्रायं के वीनियन, 2015 की पार्ट वारा प्रायं के वीर्या के पार वार्या क्या के वार्या करने के की के विगन्म 2017 वारा पार्या के वेर्या के पार्य वार्या के व्यां देश के वार्या के के वोशिक्ष करा के वार्या के वार्या के वार्या के वी क्या के वार्या के वार्या वार्या के वोशिक्ष करा वार्या के वारा के वारा वारा वां वार्या के वारा के वार्या वारा का वार्या के वार्या के वार्या के वार्या के वारा वारा व के वार्या के वारा वा